

The Speaker made reference to the 79th Anniversary of the dropping of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज से 79 वर्ष पूर्व दिनांक 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, तथा लाखों लोग घायल हुए थे या जीवन भर के लिए अपंग हुए थे । इस घटना ने पहली बार मानवता का परमाणु बम की विभीषिका से परिचय कराया था । इस घटना के इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं । आज अवसर है कि हम विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराएं । यह सभा परमाणु हथियारों को समाप्त करने और वैश्विक शांति, सद्भावना और मैत्री की भावना के प्रसार के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लेती है । अब यह सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी ।
